

Act

Chapter 24

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

- 1 Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας, κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς Ἄνανίας, μετὰ πρεσβυτέρων
बाद और पाँच दिनके उतरआया वह महायाजक हनन्याह साथ प्राचीनोंके
[G3326](#) [G1161](#) [G4002](#) [G2250](#) [G2597](#) [G3588](#) [G0749](#) [G0367](#) [G3326](#) [G4245](#)
- τινῶν, καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ
कुछ और वकील तरतुल्लुस किसी जिन्होंने प्रकटकिया उस राज्यपालककेसामने केविरुद्ध
[G5100](#) [G2532](#) [G4489](#) [G5061](#) [G5100](#) [G3748](#) [G1718](#) [G3588](#) [G2232](#) [G2596](#)
- τοῦ Παύλου.
उस पौलुसके।
[G3588](#) [G3972](#)

पाँच दिन बाद महायाजक हनन्याह कुछ बुजुर्ग यहूदी नेताओं और तिरतुल्लुस नाम के एक वकील को साथ लेकर कैसरिया आया। वे राज्यपाल के सामने पौलुस पर अभियोग सिद्ध करने आये थे।

- 2 κληθέντος δὲ αὐτοῦ, ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος, λέγων, Πολλῆς
बुलाएजानेपर और उसके शुरूकिया दोषलगाना उस तरतुल्लुसने कहतेहुए बहुत
[G2564](#) [G1161](#) [G0846](#) [G0756](#) [G2723](#) [G3588](#) [G5061](#) [G3004](#) [G4183](#)
- εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ, καὶ διορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει, τούτῳ
शांतिकी पातेहुए द्वारा तेरे और सुधारोंके होतेहुए उस जातिको इस
[G1515](#) [G5177](#) [G1223](#) [G4771](#) [G2532](#) [G1357](#) [G1096](#) [G3588](#) [G1484](#) [G3778](#)
- διὰ τῆς σῆς προνοίας,
द्वारा उस तेरी दूरदर्शितासे
[G1223](#) [G3588](#) [G4674](#) [G4307](#)

फेलिक्स के सामने पौलुस की पेशी होने पर मुकदमे की कार्यवाही आरम्भ करते हुए तिरतुल्लुस बोला, “हे महोदय, तुम्हारे कारण हम बड़ी शांति के साथ रह रहे हैं और तुम्हारी दूर-दृष्टि से देश में बहुत से अपेक्षित सुधार आये हैं।

- 3 πάντη τε καὶ πανταχοῦ, ἀποδεχόμεθα, κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης
हरजगह और और हरकहीं स्वीकारकरतेहैं महामहिम फेलिक्स साथ पूरी
[G3839](#) [G5037](#) [G2532](#) [G3837](#) [G0588](#) [G2903](#) [G5344](#) [G3326](#) [G3956](#)
- εὐχαριστίας.
कृतज्ञताके।
[G2169](#)

हे सर्वश्रेष्ठ फेलिक्स, हम बड़ी कृतज्ञता के साथ इसे हर प्रकार से हर कहीं स्वीकार करते हैं।

- 4 ἵνα δὲ μὴ ἐπιπλεῖόν σε ἐνκόπτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν
ताकि और नहीं केलिए अधिक तुझे रोकूँ विनतीकरताहूँ सुनने तुझसे हमारी
[G2443](#) [G1161](#) [G3361](#) [G1909](#) [G4119](#) [G4771](#) [G1465](#) [G3870](#) [G0191](#) [G4771](#) [G1473](#)
- συντόμως, τῆ σῆ ἐπιεικείᾳ.
संक्षेपमें उस तेरी क्षमासे।
[G4935](#) [G3588](#) [G4674](#) [G1932](#)

तुम्हारा और अधिक समय न लेते हुए, मेरी प्रार्थना है कि कृपया आप संक्षेप में हमें सुन लें।

5 εὐρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν, καὶ κινοῦντα στάσεις πᾶσιν τοῖς
पाकर क्योंकि इस पुरुषको इसको महामारी और उठानेवाला दंगे सब उन
[G2147](#) [G1063](#) [G3588](#) [G0435](#) [G3778](#) [G3061](#) [G2532](#) [G2795](#) [G4714](#) [G3956](#) [G3588](#)

Ἰουδαίους τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων
यहूदियोंमें उन में उस संसारभरमें अगुवा और उसका उन नाजरीयोंके
[G2453](#) [G3588](#) [G2596](#) [G3588](#) [G3625](#) [G4414](#) [G5037](#) [G3588](#) [G3588](#) [G3480](#)

αἰρέσεως;

पंथका;

[G0139](#)

बात यह है कि इस व्यक्ति को हमने एक उत्पाती के रूप में पाया है। सारी दुनिया के यहूदियों में इसने दंगे भड़कवाए हैं। यह नासरियों के पंथ का नेता है।

6 οἷς καὶ τὸ ἱερόν ἐπέειπεν βεβηλώσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν. {καὶ
जिसने भी उस मंदिरको प्रयासकिया अपवित्रकरने; जिसे भी हमने पकड़ा। {और
[G3739](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2411](#) [G3985](#) [G0953](#) [G3739](#) [G2532](#) [G2902](#) [G2532](#)

κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμον ἠθέλησαμεν κρίνειν};
केअनुसार उस हमारी व्यवस्थाके चाहतेथे न्यायकरना};
[G2596](#) [G3588](#) [G2251](#) [G3551](#) [G2309](#) [G2919](#)

इसने मन्दिर को भी अपवित्र करने का जतन किया है। हमने इसे इसीलिए पकड़ा है। हम इस पर जो आरोप लगा रहे हैं, उन सबको आप स्वयं इससे पूछताछ करके जान सकते हो।”

7 {παρελθὼν δὲ Λυσίας, ὁ χιλιαρχος, μετὰ πολλῆς βίας, ἐκ τῶν χειρῶν
{आकर और लूसियास वह सहस्रपतिने साथ बहुत बलसे से उन हाथोंसे
[G3928](#) [G1161](#) [G3079](#) [G3588](#) [G5506](#) [G3326](#) [G4183](#) [G0970](#) [G1537](#) [G3588](#) [G5495](#)

ἡμῶν ἀπήγαγε},
हमारे लेगया},
[G1473](#) [G0520](#)

इसने मन्दिर को भी अपवित्र करने का जतन किया है। हमने इसे इसीलिए पकड़ा है। हम इस पर जो आरोप लगा रहे हैं, उन सबको आप स्वयं इससे पूछताछ करके जान सकते हो।”

8 {κελεύσας τοὺς κατηγοροὺς αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ}; παρ’ οὗ δυνήσῃ
{आज्ञादेकर उन दोषलगानेवालोंको उसके आने केसामने तेरे}; से जिससे सकेगा
[G2753](#) [G3588](#) [G2725](#) [G0846](#) [G2064](#) [G1909](#) [G4771](#) [G3844](#) [G3739](#) [G1410](#)

αὐτὸς, ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων, ἐπαίνωναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν
तूस्वयं जाँचकर केविषयमें सब इनके जानने जिनका हम दोषलगतेहैं
[G0846](#) [G0350](#) [G4012](#) [G3956](#) [G3778](#) [G1921](#) [G3739](#) [G1473](#) [G2723](#)

αὐτοῦ.

उसपर।

[G0846](#)

इसने मन्दिर को भी अपवित्र करने का जतन किया है। हमने इसे इसीलिए पकड़ा है। हम इस पर जो आरोप लगा रहे हैं, उन सबको आप स्वयं इससे पूछताछ करके जान सकते हो।”

9 συνεπέθεντο δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν.
मिलगए और भी उन यहूदी दावाकरतेहुए ये ऐसे हैं।
[G4934](#) [G1161](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2453](#) [G5335](#) [G3778](#) [G3779](#) [G2192](#)

इस अभियोग में यहूदी भी शामिल हो गये। वे दृढ़ता के साथ कह रहे थे कि ये सब बातें सच हैं।

- 10 Ἀπεκρίθη τε ὁ Παῦλος, νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνου, λέγειν, Ἐκ
 उत्तरदिया और उस पौलुसने इशाराकरनेपर उसे उस राज्यपालकने बोलने से
[G0611](#) [G5037](#) [G3588](#) [G3972](#) [G3506](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2232](#) [G3004](#) [G1537](#)
- πολλῶν ἐτῶν, ὄντα σε κριτῆν τῷ ἔθνει τοῦτῳ, ἐπιστάμενος, εὐθύμως τὰ
 बहुत वर्षोंसे होतेहुए तुझे न्यायी उस जातिको इस जानतेहुए प्रसन्नतासे उन
[G4183](#) [G2094](#) [G1510](#) [G4771](#) [G2923](#) [G3588](#) [G1484](#) [G3778](#) [G1987](#) [G2115](#) [G3588](#)
- περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι.
 केविषयमें अपनेबारेमें प्रतिवादकरताहूँ।
[G4012](#) [G1683](#) [G0626](#)

फिर राज्यपाल ने जब पौलुस को बोलने के लिये इशारा किया तो उसने उत्तर देते हुए कहा, “तू बहुत दिनों से इस देश का न्यायाधीश है। यह जानते हुए मैं प्रसन्नता के साथ अपना बचाव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- 11 δυναμένου σου ἐπιγνῶναι ὅτι οὐ πλείους εἰσὶν μοι ἡμέραι δώδεκα, ἀφ’
 सकतेहुए तू जानने कि नहीं अधिक हैं मेरे दिन बारहसे से
[G1410](#) [G4771](#) [G1921](#) [G3754](#) [G3756](#) [G4119](#) [G1510](#) [G1473](#) [G2250](#) [G1427](#) [G0575](#)
- ἥς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἱερουσαλήμ.
 जब मैंचढ़ा आराधनाकरनेवाला में यरूशलेममें।
[G3739](#) [G0305](#) [G4352](#) [G1519](#) [G2419](#)

तू स्वयं यह जान सकता है कि अभी आराधना के लिए मुझे यरूशलेम गये बस बारह दिन बीते हैं।

- 12 καὶ οὐτε ἐν τῷ ἱερῷ εὐρόν με πρὸς τινα διαλεγόμενον, ἢ
 और नहीं में उस मंदिरमें पाया मुझे साथ किसीसे विवादकरतेहुए या
[G2532](#) [G3777](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2411](#) [G2147](#) [G1473](#) [G4314](#) [G5100](#) [G1256](#) [G2228](#)
- ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου, οὐτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς, οὐτε κατὰ τὴν πόλιν.
 उपद्रव करतेहुए भीड़की नहीं में उन आराधनालयोंमें नहीं में उस नगरमें।
[G1999](#) [G4160](#) [G3793](#) [G3777](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4864](#) [G3777](#) [G2596](#) [G3588](#) [G4172](#)

वहाँ मन्दिर में मुझे न तो किसी के साथ बहस करते पाया गया है और न ही आराधनालयों या नगर में कहीं और लोगों को दंगों के लिए भड़काते हुए

- 13 οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί σοι, περὶ ὧν νυνὶ κατηγοροῦσίν μου.
 नहीं प्रमाणितकरने सकतेहैं तुझे केविषयमें जिनका अब दोषलगातेहैं मुझपर।
[G3761](#) [G3936](#) [G1410](#) [G4771](#) [G4012](#) [G3739](#) [G3570](#) [G2723](#) [G1473](#)

और अब तेरे सामने जिन अभियोगों को ये मुझ पर लगा रहे हैं उन्हें प्रमाणित नहीं कर सकते हैं।

- 14 ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι, ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἴρεσιν,
 मानताहूँ और यह तुझे कि केअनुसार उस मार्गके जिसे कहतेहैं पंथ
[G3670](#) [G1161](#) [G3778](#) [G4771](#) [G3754](#) [G2596](#) [G3588](#) [G3598](#) [G3739](#) [G3004](#) [G0139](#)
- οὕτως λατρεύω τῷ πατρὶ Ἐθεῶ, πιστεύων πάνσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον,
 ऐसे सेवाकरताहूँ उस पूर्वजोंके परमेश्वरकी विश्वासकरतेहुए सब उन केअनुसार उस व्यवस्थाके
[G3779](#) [G3000](#) [G3588](#) [G3971](#) [G2316](#) [G4100](#) [G3956](#) [G3588](#) [G2596](#) [G3588](#) [G3551](#)
- καὶ τοῖς ἐν τῷ προφῆταις, γεγραμμένοις,
 और उन में उन भविष्यवक्ताओंमें लिखीहुईपर
[G2532](#) [G3588](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4396](#) [G1125](#)

“किन्तु मैं तेरे सामने यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर की आराधना अपने पंथ के अनुसार करता हूँ, जिसे ये एक पंथ कहते हैं। मैं हर उस बात में विश्वास करता हूँ जिसे व्यवस्था बताती है और जो नबियों के ग्रन्थों में लिखी है।

15 Ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν Θεόν, ἦν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται,
आशा रखतेहुए में उस परमेश्वरपर जो भी वेस्वयं ये प्रतीक्षाकरतेहैं
[G1680](#) [G2192](#) [G1519](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3739](#) [G2532](#) [G0846](#) [G3778](#) [G4327](#)

ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι, δικαίων τε καὶ ἀδίκων.
पुनरुत्थान वालीहै होने धर्मियोंकी और और अधर्मियोंकी।
[G0386](#) [G3195](#) [G1510](#) [G1342](#) [G5037](#) [G2532](#) [G0094](#)

| और मैं परमेश्वर में वैसे ही भरोसा रखता हूँ जैसे स्वयं ये लोग रखते हैं कि धर्मियों और अधर्मियों दोनों का ही पुनरुत्थान होगा।

16 ἐν τούτῳ καὶ αὐτὸς ἀσκῶ, ἀπαρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν
में इसमें भी मैंस्वयं प्रयासकरताहूँ निर्दोष अंतरात्मा रखने कीओर उस
[G1722](#) [G3778](#) [G2532](#) [G0846](#) [G0778](#) [G0677](#) [G4893](#) [G2192](#) [G4314](#) [G3588](#)

Θεὸν καὶ τοῦς ἀνθρώπους, διὰ παντός.
परमेश्वरकी और उन मनुष्योंकी हमेशा सर्वदा।
[G2316](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0444](#) [G1223](#) [G3956](#)

| इसीलिये मैं भी परमेश्वर और लोगों के समक्ष सदा अपनी अन्तरात्मा को शुद्ध बनाये रखने के लिए प्रयत्न करता रहता हूँ।

17 δι' ἐτῶν δὲ πλειόνων, ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου,
द्वारा वर्षोंके और बहुतीके दान करनेवाला केलिए उस जातिको मेरी
[G1223](#) [G2094](#) [G1161](#) [G4119](#) [G1654](#) [G4160](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1484](#) [G1473](#)

παρεγενόμην, καὶ προσφοράς,
आया और चढ़ावे।
[G3854](#) [G2532](#) [G4376](#)

| “बरसों तक दूर रहने के बाद मैं अपने दीन जनों के लिये उपहार ले कर भेंट चढ़ाने आया था। और जब मैं यह कर ही रहा था उन्होंने मुझे मन्दिर में पाया, तब मैं विधि-विधान पूर्वक शुद्ध था। न वहाँ कोई भीड़ थी और न कोई अशांति।

18 ἐν αἷς εὐρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου, οὐδὲ
में जिनमें पाया मुझे शुद्धकियाहुआ में उस मंदिरमें नहीं साथ भीड़के नहीं
[G1722](#) [G3739](#) [G2147](#) [G1473](#) [G0048](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2411](#) [G3756](#) [G3326](#) [G3793](#) [G3761](#)

μετὰ θορύβου. τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι,
साथ हल्लेके। कुछ और से उस एशियाके यहूदी।
[G3326](#) [G2351](#) [G5101](#) [G1161](#) [G0575](#) [G3588](#) [G0773](#) [G2453](#)

| “बरसों तक दूर रहने के बाद मैं अपने दीन जनों के लिये उपहार ले कर भेंट चढ़ाने आया था। और जब मैं यह कर ही रहा था उन्होंने मुझे मन्दिर में पाया, तब मैं विधि-विधान पूर्वक शुद्ध था। न वहाँ कोई भीड़ थी और न कोई अशांति।

19 οὐς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν, εἰ τι ἔχοιεν πρὸς
जिन्हें चाहिएथा केसामने तेरे उपस्थितहोना और दोषलगाना यदि कुछ रखतेहों केविरुद्ध
[G3739](#) [G1163](#) [G1909](#) [G4771](#) [G3918](#) [G2532](#) [G2723](#) [G1487](#) [G5100](#) [G2192](#) [G4314](#)

ἐμέ.
मेरे।
[G1473](#)

| एशिया से आये कुछ यहूदी वहाँ मौजूद थे। यदि मेरे विरुद्ध उनके पास कुछ है तो उन्हें तेरे सामने उपस्थित हो कर मुझ पर आरोप लगाने चाहियें।

20 ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν, τί εὐρον ἀδίκημα, στάντος μου ἐπὶ τοῦ
या वेस्वयं ये कहें क्या पाया अपराध खड़ेहुए मेरे केसामने उस
[G2228](#) [G0846](#) [G3778](#) [G3004](#) [G5101](#) [G2147](#) [G0092](#) [G2476](#) [G1473](#) [G1909](#) [G3588](#)

συνεδρίου --
महासभाके--
[G4892](#)

| या ये लोग जो यहाँ हैं वे बतायें कि जब मैं यहूदी महासभा के सामने खड़ा था, तब उन्होंने मुझ में क्या खोट पाया।

21 ἡ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς, ἧς ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖς ἔστως ὅτι:
 सिवाय केविषयमें एक इस शब्दके जिसे मैंनेपुकारा में उनकेबीच खड़ेहुए कि:
[G2228](#) [G4012](#) [G1520](#) [G3778](#) [G5456](#) [G3739](#) [G2896](#) [G1722](#) [G0846](#) [G2476](#) [G3754](#)

Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ἐφ' ὑμῶν.
 केविषयमें पुनरुत्थानकी मृतकोंकी मैं न्यायकियाजाताहूँ आज केसामने तुम्हारे।
[G4012](#) [G0386](#) [G3498](#) [G1473](#) [G2919](#) [G4594](#) [G1909](#) [G4771](#)

| सिवाय इसके कि जब मैं उनके बीच में खड़ा था तब मैंने ऊँचे स्वर में कहा था, 'मरे, हुआं में से जी उठने के विषय में आज तुम्हारे द्वारा मेरा न्याय किया जा रहा है।'

22 Ἀνεβάλετο δὲ αὐτοῦς, ὁ Φῆλιξ, ἀκριβέστερον εἰδῶς τὰ περὶ τῆς
 टालदिया और उनको उस फेलिक्सने अधिकसही जानतेहुए उन केविषयमें उस
[G0306](#) [G1161](#) [G0846](#) [G3588](#) [G5344](#) [G0199](#) [G1492](#) [G3588](#) [G4012](#) [G3588](#)

Ὁδοῦ, εἶπας, Ὅταν Λυσίας ὁ χιλιάρχος καταβῆ, διαγνώσομαι τὰ καθ'
 मार्गके कहकर जब लूसियास वह सहस्रपति आए निर्णयकरूंगा उन केअनुसार
[G3598](#) [G3004](#) [G3752](#) [G3079](#) [G3588](#) [G5506](#) [G2597](#) [G1231](#) [G3588](#) [G2596](#)

ὑμᾶς,
 तुम्हारे।
[G4771](#)

| फिर फेलिक्स, जो इस-पंथ की पूरी जानकारी रखता था, मुकदमे की सुनवाई को स्थगित करते हुए बोला, "जब सेनानायक लूसियास आयेगा, मैं तभी तुम्हारे इस मुकदमे पर अपना निर्णय दूँगा।"

23 διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχη τηρεῖσθαι αὐτὸν, ἔχειν τε ἄνεσιν, καὶ
 आज्ञादेकर उस सूबेदारको रखेजाना उसे रखने और आराम और
[G1299](#) [G3588](#) [G1543](#) [G5083](#) [G0846](#) [G2192](#) [G5037](#) [G0425](#) [G2532](#)

μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν αὐτῷ.
 किसीकोनहीं रोकना उन अपनोंमेंसे उसके सेवाकरने उसकी।
[G3367](#) [G2967](#) [G3588](#) [G2398](#) [G0846](#) [G5256](#) [G0846](#)

| फिर उसने सूबेदार को आज्ञा दी कि थोड़ी छूट देकर पौलुस को पहरे के भीतर रखा जाये और उसके मित्रों को उसकी आवश्यकताएँ पूरी करने से न रोका जाये।

24 Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς, παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ, τῇ
 बाद और दिनोंके कुछ आकर वह फेलिक्स साथ द्रूसिल्ला उस
[G3326](#) [G1161](#) [G2250](#) [G5100](#) [G3854](#) [G3588](#) [G5344](#) [G4862](#) [G1409](#) [G3588](#)

ἰδίᾳ γυναικί, οὕσῃ Ἰουδαία, μετεπέμψατο τὸν Παῦλον, καὶ ἦκουσεν αὐτοῦ
 अपनी पत्नीके होतेहुई यहूदन बुलवाया उस पौलुसको और सुना उसकी
[G2398](#) [G1135](#) [G1510](#) [G2453](#) [G3343](#) [G3588](#) [G3972](#) [G2532](#) [G0191](#) [G0846](#)

περὶ τῆς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως.
 केविषयमें उस में मसीह यीशू विश्वासकी।
[G4012](#) [G3588](#) [G1519](#) [G5547](#) [G2424](#) [G4102](#)

| कुछ दिनों बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रूसिल्ला के साथ वहाँ आया। वह एक यहूदी महिला थी। फेलिक्स ने पौलुस को बुलवा भेजा और यीशु मसीह में विश्वास के विषय में उससे सुना।

- 25 διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης, καὶ ἐγκρατείας, καὶ τοῦ
 बोलतेहुए और उसके केविषयमें धार्मिकताकी और संयमकी और उस
[G1256](#) [G1161](#) [G0846](#) [G4012](#) [G1343](#) [G2532](#) [G1466](#) [G2532](#) [G3588](#)
- κρίματος; τοῦ μέλλοντος ἔμφοβος γενόμενος, ὃ Φῆλιξ ἀπεκρίθη, Τὸ νῦν
 न्याय; उस आनेवालेके डराहुआ होकर वह फेलिक्सने उत्तरदिया उस अब
[G2917](#) [G3588](#) [G3195](#) [G1719](#) [G1096](#) [G3588](#) [G5344](#) [G0611](#) [G3588](#) [G3568](#)
- ἔχον πορεύου; καιρὸν δὲ μεταλαβὼν, μετακαλέσομαί σε.
 रखतेहुए जा; समय और पाकर बुलवाऊंगा तुझे।
[G2192](#) [G4198](#) [G2540](#) [G1161](#) [G3335](#) [G3333](#) [G4771](#)

किन्तु जब पौलुस नेकी, आत्मसंयम और आने वाले न्याय के विषय में बोल रहा था तो फेलिक्स डर गया और बोला, "इस समय तू चला जा, अवसर मिलने पर मैं तुझे फिर बुलवाऊंगा।"

- 26 ἅμα καὶ, ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου, διὸ
 साथही भी आशाकरतेहुए कि धन दियाजाएगा उसे द्वारा उस पौलुसके इसलिए
[G0260](#) [G2532](#) [G1679](#) [G3754](#) [G5536](#) [G1325](#) [G0846](#) [G5259](#) [G3588](#) [G3972](#) [G1352](#)
- καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος, ὡμίλει αὐτῷ.
 भी बारबार उसे बुलवातेहुए बातचीतकरताथा उससे।
[G2532](#) [G4437](#) [G0846](#) [G3343](#) [G3656](#) [G0846](#)

उसी समय उसे यह आशा भी थी कि पौलुस उसे कुछ धन देगा इसीलिए फेलिक्स पौलुस को बातचीत के लिए प्रायः बुलवा भेजता था।

- 27 Διετίας δὲ πληρωθείσης, ἔλαβεν διάδοχον ὃ Φῆλιξ, Πόρκιον Φῆστον;
 दोवर्षके और पूरेहोनेपर पाया उत्तराधिकारी वह फेलिक्सने पुरकियुस फेस्तुस;
[G1333](#) [G1161](#) [G4137](#) [G2983](#) [G1240](#) [G3588](#) [G5344](#) [G4201](#) [G5347](#)
- θέλων τε χάριτα καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις, ὃ Φῆλιξ κατέλιπε τὸν
 चाहतेहुए और अनुग्रह रखना उन यहूदियोंपर वह फेलिक्सने छोड़दिया उस
[G2309](#) [G5037](#) [G5485](#) [G2698](#) [G3588](#) [G2453](#) [G3588](#) [G5344](#) [G2641](#) [G3588](#)
- Παῦλον δεδεμένον.
 पौलुसको बंधाहुआ।
[G3972](#) [G1210](#)

दो साल ऐसे बीत जाने के बाद फेलिक्स का स्थान पुरुखियुस फेस्तुस ने ग्रहण कर लिया। क्योंकि फेलिक्स यहूदियों को प्रसन्न रखना चाहता था इसीलिये उसने पौलुस को बंदीगृह में ही रहने दिया।